



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 162]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 1983/चैत्र 10, 1905

No. 162]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1983/CHAITRA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1983

का. आ. 272(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 825(अ)/18-एए-आई.डी.आर.ए./76 तारीख 23 दिसम्बर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड पुदुकोट्टई नामक औद्योगिक उपक्रम का पूर्ण प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन), अभिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 23 दिसम्बर, 1976 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था और उक्त औद्योगिक उपक्रम का पूर्ण प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए लॉमिनाडु टेक्सटाइल कारपोरेशन को प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 906(अ)/18-एए/आआईडीआरए/81 तारीख 22 दिसम्बर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 22 जून, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

1543 GI/82

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 437(अ)/18-एए/आईडीआरए/82, तारीख 22 जून, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 30 सितम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 699(अ)/18एए/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 30 सितम्बर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 31 मार्च, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश, 30 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[का. सं. 3(9)/81-सी.यू.एस.]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1983

S.O. 272(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 825(E)/18AA/IDRA/76 dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Cauvery Spinning and Weaving Mills Limited, Pudukkottai, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 23rd December, 1976, and the Tamil Nadu Textile Corporation was authorised to take over the management of the whole of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 906(E)/18AA/IDRA/81, dated the 22nd December, 1981, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd June, 1982,

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 437(E)/18AA/IDRA/82, dated the 22nd June, 1982, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th September, 1982;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 699(E)/18AA/IDRA/82 dated the 30th September, 1982, the period of the said order was extended upto and inclusive of the 31st March, 1983.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983.

{File No. 3(9)/81-CUS}

A. P. SARWAN, Jt. Secy.